



SSC GD 2022



महामैराथन

सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक जगह

#3



दोपहर 03:00 बजे से लगातार



UPCOMING ONLINE BATCHES

December 2022

14 DEC 2022

07:30 PM to 09:30 PM

BANK ONLINE LIVE CLASS

01:00 PM to 03:00 PM

SSC ONLINE LIVE CLASS

BILINGUAL

21 DEC 2022

08:00 AM to 10:00 AM

BANK ONLINE LIVE CLASS

07:30 PM to 09:30 PM

SSC ONLINE LIVE CLASS

BILINGUAL

28 DEC 2022

05:30 PM to 07:30 PM

BANK ONLINE LIVE CLASS

01:00 PM to 03:00 PM

SSC ONLINE LIVE CLASS

BILINGUAL

14 DEC 2022

06:30 PM to 08:30 PM

BANK ONLINE LIVE CLASS

ENGLISH

28 DEC 2022

02:00 PM to 04:00 PM

BANK ONLINE LIVE CLASS

BENGLALI



www.mahendras.org •  7052477777/7052577777



SSC GD 2022-23



Find the average of p and q if the average of 22, 15, 28, p and q is 16.

p और q का औसत ज्ञात कीजिए यदि 22, 15, 28, p और q का औसत 16 है।



- a) 15
- b) 7.5
- c) 6
- d) 12



SSC GD 2022-23



45% of the total candidates who appeared for an examination were girls. 75% of the boys and 80% of the girls passed, and 144 girls failed. How many boys failed?

एक परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवारों में से 45% लड़कियाँ थीं। 75% लड़के और 80% लड़कियाँ उत्तीर्ण होती हैं और 144 लड़कियाँ अनुत्तीर्ण होती हैं। कितने लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं?



- a) 180
- b) 220
- c) 210
- d) 240



SSC GD 2022-23



If a certain sum of money on simple interest amounts to ₹1,980 and ₹2,070 in 2 years and 3 years, respectively, then what is the sum (in ₹)?

यदि एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष और 3 वर्ष में क्रमशः ₹1,980 और ₹2,070 हो जाता है, तो मूलधन (₹ में) कितना है?

- a) 1,850
- b) 1,840
- c) 1,750
- d) 1,800





SSC GD 2022-23



A shopkeeper sells an item at ₹68 and incurs a loss of 15%. At what price should he sell it to gain 20%?

एक दुकानदार एक वस्तु को 68 रुपये पर बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए?

- a) ₹92
- b) ₹95
- c) ₹96
- d) ₹90





SSC GD 2022-23



The sides of a triangle are in the ratio 4 : 9 : 7. If the sum of the shortest and the longest sides is 65 cm, then what is the length of the third side? (in cm)

एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4 : 9 : 7 है। यदि सबसे छोटी और सबसे लंबी भुजाओं का योग 65 सेमी है, तब तीसरी भुजा की लंबाई (सेमी में) कितनी है?

- a) 35 cm
- b) 30 cm
- c) 55 cm
- d) 33.5 cm





SSC GD 2022-23



The cost of levelling a circular field at ₹5 per m² is ₹19,250. What is the cost (in ₹) of putting of fence around it at ₹24 per m?

एक वृत्ताकार खेत को ₹5 प्रति वर्गमीटर की दर से समतल करने की लागत ₹19,250 है। इसके चारों ओर ₹24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत (₹ में) कितनी है?



- a) 4,752
- b) 5,500
- c) 5,280
- d) 4,224



SSC GD 2022-23



What is the greatest 5-digit number which on being divided by 3, 5, 6 and 9 leaves remainders 1, 3, 4 and 7, respectively?

5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है जिसे 3, 5, 6 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 4 और 7 बचता है?



- a) 99999
- b) 99990
- c) 99988
- d) 99992



SSC GD 2022-23



The distance between a man and a 230m long train is 115 m. How much time (in seconds) will the train, which is running at a speed of 60 km/h, take to pass the man who is running at a speed of 9 km/h towards the train?

एक व्यक्ति और 230 मीटर लंबी ट्रेन के बीच की दूरी 115 मीटर है। 60 किमी/घंटा की गति से चल रही ट्रेन को 9 किमी/घंटा की गति से ट्रेन की ओर दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा?



- a) 24
- b) 12
- c) 20
- d) 18



SSC GD 2022-23



What is the altitude of a trapezium, the sum of the lengths of whose parallel sides is 9.5 cm and the area is 57 cm²?

एक समलम्ब चतुर्भुज की ऊँचाई कितनी है, जिसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई का योग 9.5 सेमी है और क्षेत्रफल 57 वर्ग सेमी है?



- a) 5.8 cm
- b) 12 cm
- c) 7.5 cm
- d) 6 cm



SSC GD 2022-23



Simplify the following expression.

निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए।

$$9 - 2 \times 2 \div 6 \text{ of } 3 + 3$$



- a) 10
- b) 1
- c) $7/18$
- d) $11 \frac{7}{9}$



SSC GD 2022-23



A sum of ₹2,50,000 is invested for one and a half years at 12% per annum compound interest. What is the difference between the amounts received when the interest is compounded semi-annually and when it is compounded annually?

₹2,50,000 के मूलधन को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से डेढ़ वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। जब ब्याज अर्ध-वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और जब इसे वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तब प्राप्त मिश्रधनों के बीच कितना अंतर होता है?

- a) ₹900
- b) ₹970
- c) ₹954
- d) ₹950



SSC CHSL 2022



MATHS

LAST 05 YEARS

PREVIOUS YEAR QUESTIONS

SET
14

(SHORT TRICK के साथ)

BY SUNIL MAHENDRAS

LIVE | 08:15 PM





Thanks For
WATCHING

